

प्रेस नोट दिनांक 20.07.2022 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

50 ग्राम मिश्रित नशीला डायजापाम पाउडर के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा दो नफर अभियुक्त 1. गणेश पुत्र फौजदार साहनी निवासी मान्देशरी गली मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर 2. मनीष पुत्र मनोहर निषाद निवासी राय कालोनी मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर के कब्जे से 50 ग्राम नशीले डायजापाम पाउडर को बरामद कर आज दिनांक 20.07.2022 समय 07:00 बजे पावर हाउस ग्राउण्ड के पास वहद चौकी क्षेत्र मोहदीपुर से गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 516/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 517/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध/ पूछताछ विवरण- गोरखपुर शहर के रेलवे स्टेशन बस स्टेशन व भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आने वाले यात्रियों को झांसे में लेकर खाने पीने के सामान में नशीला पाउण्डर मिलाकर उनको खिला पिलाकर उनके सामानों व पैसों की चोरी कर लेते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बता रहे हैं कि हम लोग इस डायजापाम पाउडर का प्रयोग लोगों को नशा दिलाने के लिए करते हैं। राहगीरों को खाने पीने के सामानों में मिलाकर खिलाकर उनका पैसा व सामान की चोरी कर लेते हैं। हम लोग आज बाहर से कमा कर आने वाले यात्रियों की खोज में निकले थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का नाम पता व पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- गणेश पुत्र फौजदार साहनी निवासी मान्देशरी गली मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष
 - मु0अ0सं0 516/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- मनीष पुत्र मनोहर निषाद निवासी राय कालोनी मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर उम्र करीब 19 वर्ष
 - मु0अ0सं0 517/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण:-

- कुल 50 ग्राम मिश्रित नशीला डायजापाम पाउडर

गिरफ्तारी का स्थान /समय -:

- स्थान- पावर हाउस ग्राउण्ड के पास वहद चौकी क्षेत्र मोहदीपुर दिनांक - 20.07.2022 समय करीब 07.00 बजे

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अवनीश कुमार पाण्डेय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 टीपू सुल्तान थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 आशीष चौधरी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर